

## आर टेक ग्रुप द्वारा अलवर के स्कूलों में वस्त्र वितरण किया गया.

**अलवर: 2 अगस्त 2018** : राजस्थान के सबसे विश्वसनीय रियल एस्टेट डेवलपर, आर-टेक ग्रुप ने अलवर के कई राजकीय स्कूलों में छात्रों को रेडी मेड वस्त्रों का वितरण किया . इनमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवता, किशनगढ़ और मन्नी का बड शामिल है.

इस अवसर पर बोलते हुए, आर-टेक ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री राजेश यादव ने कहा की हमारे CSR प्रोग्राम के अंतर्गत हमने अलवर और आसपास के जिलों के कई प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रेडी मेड वस्त्रों का वितरण किया है और आगे भी इसी तरह से वितरण करनेका प्रावधान है.

आर-टेक समूह कई सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहा है जो समाज में वंचित लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। हमारे स्वयंसेवक इस स्थिति को बेहतर बनाने और समाज में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाने की दिशा में अपना योगदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, हमने अपने क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल कर शुरुआत की हैं.

हमने शिक्षा से वंचित बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए अलवर में एक स्कूल के निर्माण में सहयोग किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन जीने में मदद करना है। हमारी गतिविधियों में कंबल, शिक्षा सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण और कई अन्य गतिविधियां शामिल हैं।

आर-टेक ग्रुप: कंपनी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आर-टेक ग्रुप ने 2007 में रियल एस्टेट के क्षेत्र में शुरुवात की थी और पिछले 11 वर्षों में हमने 16 कमर्षियल एवं रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट का निर्माण करके लगभग 17,000 संतुष्ट ग्राहकों को यूनिट्स हैंड ओवर कर चुके हैं और आर-टेक ग्रुप राजस्थान के प्रमुख शहरों , जयपुर, बीकानेर, अलवर, नीमराना एवं भिवाड़ी में अपने प्रोजेक्टों का निर्माण कर रहा हैं। आर-टेक ग्रुप शीघ्र ही राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा जोधपुर शहरों में परियोजना ले कर आने की योजना बनायीं हैं।

For further information Please Contact : Kalpana gautam- 9560299724, Email: kalpana.gautam@rtechgroup.co.in

आर-टेक ग्रुप